

KL/SEC/2023-24/33 Date: 19th July, 2023

To,
The Manager- Listing
National Stock Exchange of India Limited,
Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai-400 051

NSE Symbol: KAMDHENU

To,
The Manager- Listing
BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai- 400 001

BSE Scrip Code: 532741

Sub: Copies of Newspaper advertisements on Notice to the Shareholders regarding transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund ('IEPF').

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 and 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), please find enclosed herewith copies of the Newspaper advertisement published today, on 19th July, 2023 in all editions of Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) Delhi – NCR edition regarding Notice of transfer of shares to the IEPF Authority pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013.

We request you to kindly take the same on records please.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Kamdhenu Limited

Khem Chand,

Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above



NMDC Limited

(A Govt. of India Enterprise) 10-3-311/A, Castle Hills, Masab Tank, Hyderabad-500028 CIN:L13100TG1958GOI001674. CONTRACTS DEPARTMENT

Dated:19/07/2023 Pre-Tender Meeting Notice

NMDC Limited, A "NAVARATNA" Public Sector Company under Ministry of Steel, Govt. of India, invites experienced, reputed and competent domestic bidders to participate in the Pre-Tender Meeting on 25/07/2023 (11.00 Hrs.) for the work of "Design, Engineering, Supply, Erection, Testing and Commissioning of Fully Automated Sampling and Analysis Systems on Turnkey basis for Iron Ore mines at Kirandul, Bacheli and Donimalai Complexes of NMDC Ltd." Venue of the Meeting: NMDC Ltd., Hyderabad

For obtaining the details Brief agenda of the meeting, Preliminary scope of work, Time schedule, project site etc. the bidders may visit NMDC website http://www.nmdc.co.in

Further, for any queries the bidders may also contact following officials directly or through email: Mr. S Sahoo, AGM (Mech.) -NMDC Ltd. (M: 9490479089) contracts@nmdc.co.in

Executive Director (Works)



WALCHANDNAGAR INDUSTRIES LIMITED Regd. Office: 3, Walchand Terraces, Tardeo Road, Mumbai - 400034. CIN: L74999MH1908PLC000291.

Tel.: (022) 23612195 / 96/ 97 E-mail: investors@walchand.com, Website: www.walchand.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 114th Annual General Meeting (AGM) of Walchandnagar Industries Limited will be held on Wednesday, August 09, 2023 at 04:30 pm (IST), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the AGM which is being circulated for convening the AGM

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and all subsequent circulars issued in this regard, the latest being 10/2022 dated December 28, 2022, permitted the holding of AGM through VC or OAVM without the physical presence of the Members at a common venue. In compliance with these circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013, the AGM of the Company will be held through VC/OAVM.

The Notice of the AGM along with the Annual Report for FY 22-23 is being sent only through electronic mode to those Members whose email addresses are registered with the Company/ Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars and SEBI Circulars dated May 12, 2020, January 15, 2021, May 13, 2022 and January 05, 2023.

The requirements of sending Physical copy of the Notice of the 114th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars and SEBI Circulars. The Annual Report for FY 22-23 will also be available on the Company's website www.walchand.com, websites of the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL https://www.evoting.nsdl.com. Members can attend and participate in the AGM through VC/ DAVM facility only and their attendance shall be counted for the purpose of reckoning quorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The instructions for joining the AGM

Remote e-voting facility is provided to the members to cast their votes on the resolutions set out in the notice of the AGM. Additionally, the Company is providing facility of e-voting during the AGM. The Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend / participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. Those members who shall be present in the AGM through VC / OAVM facility and have not cast their vote through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to

Only those members whose email addresses are registered in the Register of Members maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Wednesday, August 02, 2023 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting during the AGM.

If your email address is already registered with the Company / Depositories, login details for e-voting will be sent on your registered email address. The details of remote e-voting are given below:

- (i) The remote e-voting will commence on Sunday, August 06, 2023 (9.00 a.m.) and end on Tuesday, August 08, 2023 (5.00 p.m.). The e-voting module shall be disabled for
- (ii) The voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the pald-up share capital of the Company as of the cut-off date i.e. Wednesday, August 02, 2023. Once a vote is cast by the Member, he/ she shall not be allowed to change it
- (iii) Any person who acquires equity shares of the Company and becomes a Member after July 07, 2023 i.e. cut-off date for dispatch of the Notice and eventually holds shares as on the cut-off date i.e. Wednesday, August 02, 2023, he/ she may obtain the login details by writing to the Registrar and Share Transfer Agent at evoting.investors@linkintime.co.in or to NSDL at helpdesk.evoting@nsdl.co.in.

In case of any queries pertaining to e-voting, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting User's Manual available under help section at www.evoting.nsdl.com or email at helpdesk.evoting@nsdl.co.in (Toll Free No. Tel. 1800 222 990)

For Walchandnagar Industries Limited

Place: Mumbai Dated: July 18, 2023

G.S. Agrawal Whole Time Director & Company Secretary

MBL Infrastructure Ltd.

(Formerly known as MBL Infrastructures Ltd.) CIN: L27109DL1995PLC338407 Corp. & Regd. Office: Baani Corporate One Tower, Suite No. 308, 3rd Floor, Plot No. 5, District Commercial Centre, Jasola, New Delhi - 110 025 Tel: +91-011 48593300, Fax: +91-11-4859 3320,

NOTICE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

email:cs@mblinfra.com, Website: www.mblinfra.com

NOTICE is hereby given that the Twenty-Eighth Annual General Meeting (AGM) of MBL Infrastructure Ltd. (the Company) will be held on Saturday, 12th August, 2023 at 3:30 p.m. through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means ("OAVM") facility, to transact the business (es) as set out in the Notice which alongwith the Annual Report for the year ended 31st March, 2023, will be sent electronically to Members of the Company whose email addresses are registered with the Depositories / Link Intime India Private Limited, RTA. These documents are available on the Company's website www.mblinfra.com, and on the website of the Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com.

The members can attend and participate in the AGM through VC/OAVM facility only. The instructions for joining the AGM is provided in the Notice to the AGM. Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of the quorum under Section 103 of the Companies Act 2013. Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has made arrangement with NSDL to provide remote e-voting and e-voting during the AGM on the resolutions

Members, whose names are recorded in the Register of Members of the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. 5th August, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM. A person who is not a Member on the cut-off date should accordingly treat the Notice of the AGM for information purpose only. The manner of remote e-voting and voting at the AGM for members holding shares in physical mode or in dematerialized form or who have not registered their email address with the Company/Depository Participant, is provided in the notice of the AGM. Persons becoming members of the Company after dispatch of the Notice of the AGM but on or before 5th August, 2023 may write to NSDL at evoting@nsdl.co.in or delhi@linkintime.co.in requesting for user ID and password for remote e-voting. Members already registered with NSDL for remote e-voting can however use their existing user ID and password for this purpose.

The period for remote e-voting starts at 9.00 a.m. on Wednesday, 9th August, 2023 and ends at 5.00 p.m. on Friday, 11th August, 2023. Thereafter the remote e-voting will be blocked by NSDL. Further, once the vote on a resolution is cast by the member, the same shall not be allowed to be changed subsequently. Members who have cast their votes by remote e-voting may attend the meeting but will not be entitled to cast their votes at the meeting once again.

In case of any query / grievance relating to AGM, Members may write to Mr. Anubhav Maheshwari, Company Secretary, MBL Infrastructure Ltd., Baani Corporate One, Suite No. 308, 3rd Floor, Plot No. 5 Commercial Centre, Jasola, New Delhi- 110025 or contact at 011-48593300 or through email cs@mblinfra.com. Further for e-voting gueries, shareholders may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for them under the "Downloads" section of https://www.evoting.nsdl.com or call on 022-48867000 or 022-24997000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, NSDL at e-voting@nsdl.co.in

NOTICE is further given that pursuant to the provisions of Section 91 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the Register of Members & Share Transfer books of the Company will remain closed from 5th August 2023 to 12th August 2023 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company.

By Order of the Board For MBL Infrastructure Ltd. Anubhav Maheshwari Company Secretary

Date: July 18, 2023

Place : Mumbai



CIN:L27101HR1994PLC092205 Regd. Office: 2" Floor, Tower A, Building No. 9, DLF Cyber City, Phase-III, Gurugram (Haryana)-122002 Ph.: 91-124-4604500 Email: cs@kamdhenulimited.com Website: www.kamdhenulimited.com

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS TRANSFER OF EQUITY SHARES HELD IN KAMDHENU LIMITED ('THE COMPANY")

TO THE INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) Notice is hereby given that pursuant to the provisions of the Section 124(6) of the Companies Act, 2013, read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (as amended

from time to time) and other applicable rules, notifications and circulars, if any, the shares in respect of which the dividend remains unpaid / unclaimed for a period of seven consecutive years are required to be transferred to the Demat Account of the IEPF Authority. Pursuant to the above rules the dividend declared for the financial year 2015-16, which remained unclaimed for a period

of seven consecutive years will be transferred to IEPF on or before 26th October, 2023. The Corresponding shares on which the dividends remained unclaimed for seven consecutive years will also be transferred to IEPF. Notice is being sent to shareholders whose dividend is lying unclaimed for seven consecutive years and whose shares are liable to be transferred to IEPF. The Company has uploaded full details containing names, Folio No. / DP-ID - client-

ID of such shareholders in this respect on its website at www.kamdhenulimited.com. The shareholders of the Company who have not encashed their dividend since financial year 2015-16 are being given an opportunity, as per the prescribed rules, for claiming their unclaimed dividend by making a written application under physical signature(s) to the Company at the Registered Office of the Company or to M/s. Kfin Technologies Limited. Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Company.

In case the dividend is not claimed by the concerned shareholders by 14th October, 2023, the company shall proceed to transfer such dividend and shares to IEPF authority without further notice in the following manner

· In case of Equity Shares held in Physical form: New share certificate(s) will be issued and the concerned depository shall convert the new share certificate(s) into Demat form and shall transfer the shares in favour of the IEPF Demat Account. The original share certificate(s) registered in the shareholders' names will stand automatically cancelled and deemed non-negotiable. In case of Equity Shares held In Demat form: Concerned depository will give effect to the transfer of the equity

shares liable to be transferred in favour of the IEPF Demat Account by way of corporate action.

The shareholders may please note that unclaimed / unpaid dividend and equity shares transferred to the IEPF can be claimed from the IEPF Authority by making an online application in the prescribed Form IEPF-5 (available on the website www.iepf.gov.in) and thereafter sending a duly signed physical copy of the same along with the requisite documents enumerated in Form IEPF-5 to the Nodal Officer at the registered office address of the Company for verification of the claim. Please note that no claim shall lie against the company in respect of unclaimed dividend and equity shares transferred to IEPF.

For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact company's Registrar and Shares Transfers Agent, Mr. Suresh Babu D, Manager at Kfin Technologies Limited, Selenium Building, Tower-B, Plot Nos. 31 & 32 Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032, Tel: +91-40-67161517, email id einward.ris@kfintech.com. For Kamdhenu Limited,

Date: 18.07.2023 Place : Gurugram

KAMDHENU

STEEL

Khem Chand Company Secretary & Compliance Officer

B

UNITED BREWERIES LIMITED

Registered Office: "UB Tower", UB City, #24 Vittal Mallya Road, Bengaluru - 560 001. Telephone: +91-80-45655000 Fax: +91-80-22211964, 22229488 CIN: L36999KA1999PLC025195

Website: www.unitedbreweries.com. Email: ublinvestor@ubmail.com

NOTICE

SHAREHOLDERS NOTICE FOR TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND AND EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) ACCOUNT

NOTICE is hereby given to the Shareholders of United Breweries Limited ("the Company") that pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2016 as amended (hereinafter referred to as 'the Rules'), all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven (7) consecutive years or more, by any shareholder(s) shall be transferred by the Company to Investor Education and Protection Fund ("IEPF").

The unpaid/unclaimed dividends have been transferred from time to time as per the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as 'the Act') to the Investor Education and Protection Fund (IEPF). Next due date for such transfer would be on November 09, 2023 with regard to the Final dividend paid for the financial year ended March 31, 2016. Accordingly, the shares also stand due to be transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) on November 09, 2023.

The Company has already sent an intimation at the latest available address individually to each of the shareholder(s) whose shares are liable to be transferred to IEPF under the Rules, requesting them to take needful action on or before October 11, 2023. The full details of such shareholders including their name, folio number or DPID-ClientID and the number of share(s) due for transfer are also available on the website www.unitedbreweries.com. Shareholder(s) are requested to verify the details of their share(s) due to be transferred to the IEPF Authority.

intimation to the Registrar & Share Transfer Agents on or before October 11, 2023 with a request for claiming the unpaid dividend for the Financial year ended March 31, 2016 (final dividend) and onwards so that the shares are not transferred to IEPF. In the event, no communication is received from such Shareholders, the Company will be constrained to transfer the

Notice is further given to all such shareholder(s) to forward the requisite documents as mentioned in the aforesaid

shares to the DEMAT Account of the IEPF Authority in terms of the said rules. The concerned shareholder(s) holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred may note that the Company would be issuing Letter of Confirmation [in place of duplicate share certificate(s)] held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority DEMAT Account as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which stands registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

Shareholder(s) can claim back the share(s) from the IEPF Authority so transferred as well as unclaimed dividends and corporate benefits accruing on such shares, if any, by following the process prescribed in the Rules. No claim shall lie against the Company with respect to the unclaimed dividends and share(s) transferred to the IEPF pursuant to the Rules.

In case shareholder(s) have any guery on the subject matter and the Rules, they may contact Company's Registrar & Share Transfer Agent viz., Integrated Registry Management Services Private Limited, No. 30, Ramana Residency, 4" Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru - 560 003 [Tel. Nos. 80 - 23460815 to 818, Email: bglsta@integratedindia.in.]

> For UNITED BREWERIES LIMITED Sd/-

Date: July 18, 2023 Place: Bengaluru

AMIT KHERA

Company Secretary & Compliance Officer

$CH \land LET$

Chalet Hotels Limited

CIN: L55101MH1986PLC038538

Registered Office: Raheja Tower, Plot No. C-30, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra East. Mumbai 400 051 Tel: 022 2656 4000 Fax: +91-22-26565451, Email: companysecretary@chalethotels.com Website: www.chalethotels.com

NOTICE OF THE 38" ANNUAL GENERAL MEETING OF CHALET HOTELS LIMITED

NOTICE is hereby given that the Thirty Eighth Annual General Meeting ('AGM') of the Members of Chalet Hotels Limited ('the Company') is scheduled to be held on Thursday, August 10, 2023 at 03.00 p.m. (IST) through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM'), to transact the business as set out in the Notice convening the said AGM. The AGM is being held through VC / OAVM in compliance with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 and Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, read with Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 and Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Circular SEBI/ HO/ CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021 read with SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (collectively 'Applicable Circulars').

In terms of the Applicable Circulars, the Notice convening the AGM and e-Voting instructions along with the Annual Report have been sent only in electronic form to those Members whose email addresses are registered with their respective Depository / Depository Participant(s). Members who have not registered their email address and wish to receive the Notice convening AGM and the Annual Report, may send an email request at the email id einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed request letter providing the email address, mobile number, self-attested copy of PAN and Client Master Data. The Notice of the AGM along with e-voting instructions and Annual Report are available on the website of the RTA viz. https://evoting.kfintech.com as well as on the website of the Company at www.chalethotels.com/annualreports/. The same is also available on the website of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and BSE Limited at www.bseindia.com.

The Members are requested to refer to the AGM Notice, for instructions in respect of attending the AGM through VC / OAVM or voting through electronic means.

This newspaper intimation will also be available on the Company's website at www.chalethotels.com and on the websites of the Stock Exchanges.

The Company is providing its Members the facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed by electronic means ('remote e-Voting') before and at the AGM, by which Members may cast their votes using the remote e-Voting system. The remote e-Voting facility shall commence on Monday, August 7, 2023 from 9:00 a.m. (IST) and end on Wednesday, August 9, 2023 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-Voting module shall thereafter be disabled for voting and subsequently enabled for e-Voting at the AGM.

Only Members, whose names appear in the Register of Members / Beneficial Owners as on the cut-off date viz. Friday, August 4, 2023, shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before and at the AGM. Any person who becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holds shares as on the cut-off date may obtain the 'User ID' and 'Password' by sending a request at evoting@kfintech.com. The detailed procedure for obtaining the 'User ID' and 'Password' is also provided in the Notice of the AGM which is available on Company's website and KFin's website mentioned above. Further, please note that, in terms of Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 issued by SEBI dated December 9, 2020, individual shareholders holding shares in dematerialized form are requested to follow the process mentioned in the Notice for ascertaining the login credentials and access e-Voting facility provided by the Depositories NSDL/CDSL to cast their vote. The login credentials provided by KFin should only be used for attending the AGM. For other shareholders (i.e., Non-Individual shareholders holding securities in demat mode), the Company is providing facility for remote e-Voting, through its RTA's e-Voting platform https://evoting.kfintech.com and the login credentials are to be used for both e-Voting as well as for attending

The Members who have cast their vote(s) by remote e-Voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote(s) again.

The results, along with Scrutinizer's Report, will be displayed at the Registered Office of the Company, hosted at the Company's website i.e. www.chalethotels.com and on the e-voting website of KFin i.e. https://evoting.kfintech.com within 2 working days of the AGM. The results will also be intimated simultaneously to the Stock Exchanges where the Company's shares are listed.

Members are requested to note the following contact details for addressing queries / grievances, if any:Mr. Umesh Pandey (Unit: Chalet Hotels Limited)KFin Technologies LimitedSelenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500 032. Email ID: einward.ris@kfintech.comT o 11 free No. 1800 309 4001 **For Chalet Hotels Limited**

> **Christabelle Baptista Company Secretary and Compliance Officer**

Sd/-

SUDARSHAN

Sudarshan Chemical Industries Limited

Regd. Office & Global Head Office: 7th Floor, Eleven West Panchshil, Survey No. 25, Near PAN Card Club Road, Baner, Pune - 411 045. Tel.: +91 20 682 81 200 Fax No.: 020-26058222

Email: shares@sudarshan.com Website: www.sudarshan.com CIN: L24119PN1951PLC008409

NOTICE •

Notice is hereby given that the 72[™] Annual General Meeting ("AGM") of SUDARSHAN CHEMICAL

INDUSTRIES LIMITED ("the Company") will be held on Friday, 11th August, 2023 at 4.00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013, and Rules made thereunder, and Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") dated 8" April, 2020, 13" April, 2020, 13" January, 2021, 8" December, 2021, 14th December, 2021, 5th May, 2022, and 28th December, 2022, (collectively referred to as MCA Circulars) and Circular issued by The Securities and Exchange Board of India ("SEBI") dated 5th January, 2023, and other Circulars issued from time to time, (collectively referred to as SEBI Circulars), to transact the business as set out in the Notice convening the 72nd AGM. In compliance with the said MCA and SEBI Circulars, Notice of the 72nd AGM and Annual Report for FY

2022-23 will be sent in electronic mode only through email to those members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Transfer Agent ("RTA") / Depository Participants ("DP's"). These documents will also be made available on the Company's website www.sudarshan.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ("BSE") and National Stock Exchange of India Limited ("NSE") at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. Members can vote through remote e-voting or e-voting at the time of AGM. Instructions for remote e-

voting, e-voting at the time of AGM, and procedure for attending the AGM through VC/OAVM facility for the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their email addresses will be provided in the AGM Notice. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum as per the applicable legal

In view of the above, members are requested to register their email addresses or changes therein, if any, at the earliest, to receive the aforesaid AGM Notice, Annual Report and login id and password for e-voting electronically as per the details given below -

For shares held in Visit the link of Link Intime India Private Limited ("Link Intime"), by clicking physical mode the link: https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html or through their web site www.linkintime.co.in > Investor Services > E mail / Bank Registration > select 'SUDARSHAN CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED' and follow the registration process as guided therein. On submission of the member's details, an OTP will be received by the member, which needs to be entered in the link for verification. Members are requested to provide their Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to shares@sudarshan.com or RTA at pune@linkintime.co.in For shares held in Kindly contact your Depository Participant ("DP") for registration dematerialized mode updation of email address

The members (in case of holding shares in physical mode) who have not updated their bank account details for receiving the dividend, if any, directly in their bank account through electronic mode, may update their bank account details through the aforesaid link by uploading the necessary documents. The members (in case of holding shares in dematerialized mode) are requested to contact their DP for updating the bank details.

As per the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, dividend paid or distributed by the Company on or after 1" April, 2020, shall be taxable in the hands of the Members. The Company shall therefore be required to deduct Tax at Source ("TDS") at the time of payment of Final Dividend. In order to enable the Company to determine the appropriate TDS rate as applicable, Members are requested to submit documents in accordance with the applicable provisions.

For Sudarshan Chemical Industries Limited

Mandar Velankar General Counsel and Company Secretary

Place: Pune

Date: 18" July, 2023

This is a public announcement for information purposes only and is not a Prospectus Announcement. Not for publication and distribution, directly or indirectly outside India. **PUBLIC ANNOUNCEMENT**

Toplight Commercials Limited

TOPLIGHT COMMERCIALS LIMITED

Our Company was incorporated as "Toplight Commercials Limited" on July,17 1985 as a Limited Company under the Companies Act, 1956, pursuant to a Certificate of Incorporation granted by the Registrar of Companies, Kolkata, West Bengal. Registered office: 7A Bentinck Street, 1st Floor Kolkata 700001, West Bengal, India

Contact Person: Mr. Ajit Jain, Company Secretary & Compliance Officer; Tel No: (033) 2248 4400 / 7676

E-Mail ID: toplightkol@gmail.com; Website: www.toplightltd.com; CIN: L51909WB1985PLC039221 OUR PROMOTERS: (I) AVISEKH SARAF (II) BIMAL GUPTA (III) KUMKUM GUPTA (IV) NIRMAL KUMAR

SARAF (V) PUSHPA AGARWAL (VI) SURESH KUMAR AGARWAL (VII) TARA CHAND AGARWAL AND (VIII) UDIT GUPTA

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY

THE ISSUE

ISSUE OF UP TO 28,67,060 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF Rs. 10.00/- (RUPEES TEN ONLY) ("RIGHTS EQUITY SHARES") EACH AT A PRICE OF Rs. 10/- PER EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO Rs. 286.71 LAKHS* ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARE FOR EVERY 1 (ONE) FULLY PAID-UP EQUITY SHARE HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS AS ON THE RECORD DATE, [] ("THE ISSUE"). FOR FURTHER DETAILS, KINDLY REFER TO THE CHAPTER

TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE 111 OF THE DRAFT LETTER OF OFFER. * Assuming full subscription with respect to Rights Equity Shares

This Public Announcement is made in compliance with the provisions of Regulation 72 (2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (the "SEBI ICDR Regulations"), to inform the public that the Company is proposing subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of Equity Shares to its equity shareholders on rights basis and has on July 17, 2023 filed a Draft Letter of Offer ("DLOF") with the Designated Stock Exchange The Calcutta Stock Exchange Limited ("CSE"). Since the size of the Rights issue is less than Rs. 50.00 Crores (Rupees Fifty crores), the DLOF has not been filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") nor SEBI shall issue any observation on the DLOF. The DLOF is available on the website of Stock Exchange, i.e., CSE at www.cseindia.com, the website of the Lead Manager to the Issue at www.finshoregroup.com and the website of the Company at www.toplightltd.com.

Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their investment. Investors are advised to read the Risk Factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision, Investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Rights Equity Shares being offered in this Issue have not been recommended or approved by Securities and Exchange Board of India ("SEBI") nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Letter of Offer.

Investors are advised to refer to the "Risk Factors" on page 19 of the Draft Letter of Offer before making an investment in the Issue.

REGISTRAR TO THE ISSUE

FINSHORE Dreating Enterprise Alleraging Values

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

FINSHORE MANAGEMENT SERVICES LIMITED "Anandlok", Block-A, 2nd Floor, Room No. 207, 227, A.J.C Bose Road, Kolkata-700020. West Bengal Telephone:

+91 33 22895101/+91 33 4603 2561

Email Id: info@finshoregroup.com Website: www.finshoregroup.com **Investor Grievance Email Id:** investors@finshoregroup.com **Contact Person:**

Date: July 18, 2023

Place: Kolkata

Mr. S. Ramakrishna Iyengar SEBI Registration No: INM000012185 **CIN No:** U74900WB2011PLC169377

CAMEO CORPORATE SERVICES LIMITED "Subramanian Building",

INR000003753

No. 1, Club House Road,

Chennai - 600 002. Tamil Nadu, India Telephone: 044-40020700 (5 Lines) Email: priya@cameoindia.com **Investor Grievance ID:** investor@cameoindia.com Website: www.cameoindia.com **Contact Person:** Ms. K. Sreepriya **SEBI Registration Number:**

CIN: U67120TN1998PLC041613

NICHE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED 3A Auckland Place, 7th Floor, Room No. 7A &7B, Kolkata 700 017. West Bengal, India Telephone: (033) 2280 6616 / 6617 / 6618 Email: nichetechpl@nichetechpl.com **Investor Grievance Email:** investor grievance@nichtechpl.com **Contact Person:** Mr. Ashok Sen Website: www.nichetechpl.com SEBI Registration Number: INR000003290 CIN No: U74140WB1994PTC062636

REGISTRAR TO THE COMPANY

All capitalised terms used and not specifically defined herein shall have the same meaning ascribed to them in the DLOF.

For Toplight Commercials Limited On behalf of the Board of Directors

Ajit Jain

Company Secretary & Compliance Officer This Public announcement has been prepared for publication in India and may not be released in any other jurisdiction. Please note

that the distribution of the DLOF and the Issue of equity shares on a rights basis to persons in certain jurisdictions outside India may be restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Accordingly, any person who acquires Rights Entitlements or Rights Equity Shares will be deemed to have declared, warranted, and agreed that at the time of subscribing to the Rights Equity Shares or the Rights Entitlements, such person is not and will not be in the United States and/or in other restricted jurisdictions. The Rights Equity Shares of the Company have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act"), or in any other jurisdiction which have any restrictions in connection with offering, issuing and allotting Rights Equity Shares within its jurisdiction and/or to its citizens. The offering to which the DLOF relates is not and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or any other jurisdiction other than India or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlement.

financialexp.epan.in

Place: New Delhi Date: 18.07.2023

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय: प्रथम तल, 'डेयर हाउस' नंबर २, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई-600 001 शाखा कार्यालय : जनकपुरी, माहोली रोड, निकट जयगुरूदेव मंदिर, एनएच-2, मथुरा-281004, उत्तर प्रदेश

अधिनियम, 2002 की धारा 13[2] के अधीन मांग सूचना

तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत कार्यवाही आरंभ कर दी है और कि आप कर्जदारों को अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचन पंजीकृत पावती डाक के माध्यम से भेजी गई सुचना अवितरित के रूप में वापस प्राप्त हो चुकी है। अतएव, आप से एतदद्वारा सुचित होने और उक्त खाते में वर्णित बकाया ऋण राशि उस पर उदभूत होने वाले ब्याज के साथ, इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर, कम्पनी अपनी बकाया राशि की वसूली ब्याज और लागतों सहित करने के लिए अधिनियम की घारा 13 की उप–धारा (4) के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित प्रतिभूति के प्रवर्तन द्वारा आपके विरूद्ध कार्यवाही आगे बढ़ाएगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आपको यह सूचना कम्पनी के पास उपलब्ध अन्य उपायों को प्रतिकूल प्रभावित किए बिना जारी की जा रही है।

नाम और पता	76-1 (IKI	एवं बकाया राशि	आस्ति का वर्णन		
ऋण खाता सं. HE02AHE0000003385, X0HEAHE00002471704) 1. संजीव कुमार मकान नंबर — 35, प्लॉट नंबर 139 डी, कृष्णा नगर, मथुरा बांगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश—281004 2. मैसर्स मेमसाब दुकान नंबर 1—2, नगरपालिका मार्किट, कृष्णा नगर, मथुरा बांगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश—281004 3. रोहिताश सिंह हिंडोल 4. सुषमा हिंडोल 3 एवं 4 का पता : मकान नंबर — 35, प्लॉट नंबर 139 डी, कृष्णा नगर, मथुरा बांगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश—281004	रू. 1,07,19,500 / — (रूपए एक करोड़ सात लाख उन्नीस हजार पांच सौ मात्र)	15—07—2023 क. 1,21,77,750 / — (रूपए एक करोड़ इक्कीस लाख सतहत्तर हजार सात सौ पचास मात्र) 11—07—2023 तक बकाया	आवासीय मकान नंबर — 35, प्लॉट नंबर 139 डी, कार्पोरेशन नंबर 216/350/242, कृष्णा नगर, मथुरा—281004, उत्तर प्रदेश। पूरब— गली, पश्चिम— गली, उत्तर— प्लॉट नंबर 138 पर राम स्वरूप का मकान, दक्षिण— प्लॉट नंबर 140. परिमाप —2250 वर्ग फीट		
तिथि : 19—07—2023 स्थान : मथुरा प्राधिकृत अधिकारी : चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड					

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके पश्चात ''अधिनियम'') के तहत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का इण्डिया इन्फोलाइन हाउसिं फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल-एचएफएल) कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम-122015, (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 30/30ई, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री। जैसा कि आईआईएफएल एचएफएल के अधिकृत प्राधिकारी (''एओ'') ने आईआईएफएल-एचएफएर के बकायों की वसली के लिए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी सचना के अनसार निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्ट सं. में यहाँ नीचे उल्लिखित सम्पत्ति का ''जहाँ है जैसे है'' तथा ''जो है यही है'' आधा पर बिक्री करने के अधिकार सहित कब्जा कर लिया था। यह बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट www.bankeauctions.com पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी।

2. श्रीमती खुशी सक्सेना छियानवे हजार चार सौ चौवन मात्र) वर्ग गज, सेकंड फ्लोर फ्रंट साइड, लेफ्ट हैंड	ली नंबर 17 राजापुरी, उत्तम नगर, रु. 23,54,264/- जमा धराहर साश (इएमडा)
---	---

भुगतान का माध्यम : ईएमडी भुगतान केवल ऑनलाइन मोड मैं किये जाने हैं। भुगतान करने के लिए आपके https://bankeauctions.com पर जाना होगी और केवल सम्पत्ति व नोट : प्रत्येक सम्पत्ति के लिए भुगतान भिन्न-भिन्न है। सुनिश्चित करें कि आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदी जाने वाली सम्पत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं।

शेष भुगतान के लिए, सफल बोली के बाद, आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम किया जाना है। खाता विवरण निम्नवत हैं : (क) खाते का नाम : आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (ख) बैंक का नाम : स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड, (ग) खाता नं. 9902879XXXXX इसके बाद प्रॉस्पेक्ट संख्या, (घ) आईएफएससी कोड : SCBL0036001 (ङ) बैंक का पता : स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, 90, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुम्बई-400001

्ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकारों को अग्रिम में ही सेवा प्रदाता https://www.bankeauctions.com के साथ अपने विवरण पंजीकृत कराने होंगे और लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी तथ पासवर्ड सुजित करना होगा। इच्छुक संविदाकारों को अपने ''निविदा प्रपत्र'' ईएमडी के प्रति भुगतान, केवाईसी तथा पैन कार्ड की प्रति के साथ उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर जमा करना/भेजना होगा। संविदाकार अपने प्रस्ताव ''संविदा वृद्धि राशि'' के कॉलम के तहत उल्लिखित राशि के गुणक में बढ़ायेंगे। यदि संविदा नीलामी बन्द होने के समय के अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समर

सफल संविदाकार को एओ द्वारा संविदा मूल्य की स्वीकृति के 24 घण्टे के भीतर संविदा राशि का 25% (ईएमडी के समायोजन के बाद) जमा करना होगा और संविदा राशि का शेष 75% प्रतिभृत लेनदार द्वार बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। सभी जमा राशियां तथा भुगतान निर्धारित भुगतान माध्यम में करने होंगे। क्रेता को सेस, प्रयोज्य स्टाम्प शुल्क, शुल्क एवं अन्य विधिक देयताओं अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित अन्य सभी देयताओं जैसे निगम कर, बिजली के प्रभार, भूमि एवं अन्य आकस्मिक लागतों, प्रभारों तथा सभी

संविदाकारों को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु अपनी संविदाएं जमा करने से पूर्व नीलामी बिक्री तथा नीलामी आवेदन प्रपत्र के विस्तृत नियम एवं शर्ती हेतु वेबसाइट https://bankeauc tions.com तथा https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखने का परामर्श दिया जाता है।

अधिक विवरण. सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित संविदाकार सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी : support@bankeauctions.com, सपोर्ट हेल्पलाइन नम्बर 7291981124/25/26 से सम्पर्क कर सकते हैं।

के बीच कॉल करें या email:- auction.hl@iifl.com पर लिखें। एतद्वारा उपर्युक्त कथित कर्जदारों को भौतिक कब्जा लेते समय 7 दिनों के भीतर प्रतिभृत आस्ति पर पड़ी हुई वस्तुएं हटाने की सुचना दी जाती है अन्यथा आईआईएफएल-एचएफएल इन परिस्थितियों में सम्पत्ति के किसी नकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

एतद्वारा कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि यदि वे उपर्युक्त कथित वस्तुएँ हटाने में असफल रहते हैं तो इसे कानून के अनुसार बेच दिया जायेगा।). यदि उपर्युक्त निर्धारित समय के भीतर सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भगतान में चुक होती है तो बिक्री निरस्त हो जायेगी और पहले से अदा की गयी राशि (ईएमडी सहित) जब्त क ली जायेगी तथा सम्पत्ति को पुनः बिक्री पर रखा जायेगा।

. एओ को बिना कोई कारण बताइए निवदा/नीलामी के नियम एवं शर्तों को स्थगित/निरस्त अथवा परिवर्तित करने का अधिकार है। यदि निवदा/नीलामी में कोई विवाद होता है तो आईआईएफएल–एचएफए के एओ का निर्णय अन्तिम होगा। सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(६) के तहत 30 दिवसीय विधिक बिक्री सूचना

रतद्वारा कर्जदार को निविदा/नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि का भगतान करने के लिए अधिसचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्र की जायेगी और शेष बकाया, यदि कोई हो, ब्याज तथा लागत सहित वसल किया जायेगा

स्थान : दिल्ली ह./- अधिकृत प्राधिकारी तिथि : 19 जुलाई, 2023 आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड



सीआईएन : L27101HR1994PLC092205 पंजीकृत कार्यालय : दूसरी मंजिल, टॉवर ए, बिल्डिंग नं. 9, डीएलएफ साइबर सिटी, फेज-III, गुरुग्राम (हरियाणा)-122002 दरभाष : 91-124-4604500 ई-मेल : cs@kamdhenulimited.com वेबसाइट : www.kamdhenulimited.com

कामधेनु लिमिटेड

शेयरधारकों के लिए सुचना

कामधेनु लिमिटेड ('कम्पनी') में धारित इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अंतरण

एतद्वारा सुचना दी जाती है कि निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, संपरीक्षा, अन्तरण और प्रतिदाय) नियमावली 2016 ('नियम') (समय-समय पर संशोधित) के सहपठित कम्पनी अधिनियम की धारा 124(6) के प्रावधानों एवं अन्य प्रयोज्य नियमों, अधिसूचनाओं तथा परिपत्रों, यदि कोई हो, के अनुसार, शेयर, जिसके परिप्रेक्ष्य में सात लगातार वर्षों या इससे अधिक समय तक लाभांश अदत्त/अदावाकृत हैं, उन्हें आईईपीएफ खाते में अन्तरित करना अपेक्षित है।

उपर्युक्त नियमों के अनुसार वित्त वर्ष 2015–16 हेतु घोषित लाभांश, जो गत लगातार सात वर्षों से अदावाकृत हैं, उन्हें 26 अक्टूबर, 2023 को आईईपीएफ में अन्तरित कर दिया जायेगा। गत सात लगातार वर्षों से अदावाकृत लाभांश पर संगत शेयरों को भी आईईपीएफ में अन्तरित कर दिया जायेगा।

गत सात लगातार वर्षों से जिनके लाभांश अदावाकृत बने हुए हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ में अन्तरित किये जाने योग्य हैं उनके पास सूचनाएँ भेजी जा रही हैं। कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों के नाम, फोलियो नं./डीपी आईडी–क्लाइंट आईडी आदि सहित पूर्ण विवरण अपनी वेबसाइट www.kamdhenulimited.com पर अपलोड कर दिये हैं कंपनी के शेयरधारकों, जिन्होंने 2015-16 से अपने लाभांश का नकदीकरण नहीं किया है, को निर्धारित नियमों के अनुसार, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में या मैसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कंपनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट (आरटीए) के पास भौतिक हस्ताक्षर के तहत एक लिखित आवेदन करके अपने अदत्त लाभांश का दावा यदि संबंधित शेयरधारकों द्वारा 14 अक्टबर, 2023 तक लाभांश का दावा नहीं किया जाता है, तो कंपनी इस तरह के लाभांश और शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण को बिना

किसी सुचना के निम्नलिखित तरीके से स्थानांतरित करने के लिए आगे बढ़ेगी:

• भौतिक रूप में धारित इक्विटी शेयरों के मामले में: नया शेयर प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और संबंधित डिपॉजिटरी नए शेयर प्रमाणपत्रों को डीमैट रूप में परिवर्तित करेगा और शेयरों को आईईपीएफ डीमैट खाते के पक्ष में स्थानांतरित करेगा। शेयरधारकों के नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हो जाएगा और

• **डीमैट रूप में धारित इक्विटी शेयरों के मामले में**: संबंधित डिपॉजिटरी कॉरपोरेट कार्रवाई के माध्यम से आईईपीएफ डीमैट खाते के पक्ष में स्थानांतरित किए जाने

वाले इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण को प्रभावी करेगा।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ को हस्तांतरित किए गए अदावाकृत/अदत्त लाभांश और इक्विटी शेयरों का दावा आईईपीएफ प्राधिकरण से निर्धारित फॉर्म आईईपीएफ –5 (वेबसाइट www.iepf.gov.in पर उपलब्ध) में एक ऑनलाइन आवेदन करके किया जा सकता है और इसके बाद दावे के सत्यापन के लिए कंपनी के नोडल अधिकारी को फॉर्म आईईपीएफ-5 में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ उसी की विधिवत हस्ताक्षरित भौतिक प्रति भेजनी होगी। **कृपया ध्यान दें कि आईईपीएफ**

को हस्तांतरित किए गए अदावाकृत लाभांश और इक्विटी शेयरों के संबंध में कंपनी के खिलाफ कोई दावा नहीं हो सकेगा। उपरोक्त मामले पर किसी भी प्रश्न के लिए, शेयरधारकों से कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, श्री सुरेश बाबु डी, प्रबंधक, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500032, दूरभाषः +91-40-67161517, ईमेल आईडीः einward.ris@kfintech.com से संपर्क करने का अनुरोध किया जाता है। ।

कते कामधेन लिमिटेड

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

खेम चन्द

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 18.07.2023



चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड कार्पोरेट कार्यालय : प्रथम तल, 'डेयर हाउस' नंबर 2, एन.एस.सी. बोस रोड, चेन्नई-600 001 शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर ६, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

कब्जा सूचना (नियम 8(1) के तहत)

जबिक, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एं) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निदर्शित किए गए हैं. से कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि का भगतान उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदद्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति

का कब्जा कालम (एफ) में निदर्शित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड की कालम (डी) में निदर्शित बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा। प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसूचना से पहले पूरी बकाया राशि सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों सहित चुकाकर प्रत्याभूत

आरि	आस्ति छुड़ा सकते हैं।					
क्र. सं.	आवेदक का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि	
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	
1.	ऋण खाता सं. X0HEDET00002953316 एवं X0HEDET00002970842 1. ज्ञानेन्द्र कुमार पता : 2297 / 174, गणेश पुरा, त्रि नगर, नई दिल्ली—110035 अन्य पता : 1494 / 105, प्रथम, द्वितीय तल, गणेश पुरा, त्रि नगर, नई दिल्ली—110035 2. मन्नो देवी 2297 / 174, गणेश पुरा, त्रि नगर, नई दिल्ली—110035 3. सैनी होजरी (इसके एआर / निदेशकों / स्वामियों के माध्यम से) 1494 / 105, प्रथम, द्वितीय तल, गणेश पुरा, त्रि नगर, नई दिल्ली—110035	19.10.2022	ਲ. 42,59,124.04/- 14.09.2022 ਰਥ	सम्पत्ति भू तल, परिमाप 9.19 वर्ग मीटर, छत का अधिकार नहीं, सम्पूर्ण प्रथम और द्वितीय तल छत के अधिकार सहित, परिमाप 193 वर्ग गज (उक्त पोर्शन) जो सम्पत्ति म्युनिसिपल नंबर 2297 / 174, गली नंबर 174, पुराना प्लॉट नंबर 108, परिमाप 193 वर्ग गज का भाग है तथा ग्राम चौकड़ी मुबारकबाद, आबादी गणेशपुरम के नाम से ज्ञात, त्रि नगर, दिल्ली में स्थित है और निम्नानुसार परिबद्ध है :— पूरब : रोड, पश्चिम : प्लॉट नंबर 139, उत्तर : प्लॉट नंबर 109, दक्षिण : प्लॉट नंबर 107	17.07.2023 भौतिक	
2.	ऋण खाता सं. X0HEDHE00001204530 एवं X0HEDET00002234511 1. मनीष जैन एच. नंबर 9 / 1852, गली नंबर 02, कैलाश नगर, गांधी नगर, नई दिल्ली— 110031 2. अवनीश जैन उर्फ अवनीश जैन एच. नंबर 9 / 1852, गली नंबर 02, कैलाश नगर, गांधी	22	523.71/- 2022 5	सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति सं. 9/1852, क्षेत्रफल परिमाप 70 वर्ग गज, निर्मित प्लॉट नंबर 995/169 एवं 995/170, खसरा नंबर 8, 9, 11 से 16 एवं 128, आबादी गली नंबर 2, कैलाश नगर, ग्राम सीलमपुर, शाहदरा,	23	

दिल्ली— 110031 प्राधिकृत अधिकारी : चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड Can Fin Homes Ltd ponsor: Canara Ba

केन फिन होम्स लि.

डीडीए बिल्डिंग, प्रथम तल, नियर पारस सिनेमा, नेहरु प्लेस, नई दिल्ली—110019 फोनः 011-26435815, 2643023, 011-26487529, 7625079108 ईमेलः delhi@canfinhomes.com CIN: L85110KA1987PLC008699

माग सूचना वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ (सरफासी ऐक्ट) की धारा १३(२) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, २००२ (नियमावली) के नियम ३(१) के अधीन

जबिक अधोहस्ताक्षरी ने. केन फिन होम्स लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, सरफासी ऐक्ट के अधीन और उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सचना जारी की थी, जिसमें यहां नीचे सुचीबद्ध कर्जदारों / गारंटरों (इसमें आगे "उक्त कर्जदार" कहे गए हैं) से, सूचना में वर्णित राशियां, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। उक्त सूचनाएं डॉक अधिकारियों द्वारा अवितरित के रूप में लौटा दी गई हैं / कर्जदारों द्वारा सम्यक् प्राप्त नहीं की गई हैं। अतएव कम्पनी पूर्ण सावधानी के साथ यह मांग सूचन

प्रकाशित करवा रही है (नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार)। अधोहस्ताक्षरी द्वारा, अतएव, ये सूचनाएं, उक्त अधिनियम के अनुसार, उक्त कर्जदारों के अंतिम ज्ञात पतों के परिसर पर

संबंधित पार्टियों द्वारा ऋण की सम्यक वापसी के लिए प्रतिभृति के रूप में, निम्नलिखित आस्तियां कम्पनी के पास बंधक रखी गई हैं। कर्जदारां / गारंटरों का नाम के अनुसार तिथि एवं पता दार्वित

श्री कुमार इंद्रजीत पुत्र रामोदय शर्मा, श्रीमती सीपू ालैट नंबर— एसएफ–4, दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर— बी–60, सेक्टर–12, रामप्रस्थ कॉलोनी, गाजियाबाद, 29.06.2023 कुमारी पत्नी कुमार इंद्रजीत (उधारकर्ता) श्री उमेश उत्तर प्रदेश—201011 (लगभग 37.16 वर्ग मीटर माप) डिमांड नोटिस दिनांक 05.07.2023 उत्तर-पूर्वः फ्लैट नंबर-एसएफ-2 उत्तर-पश्चिमः फ्लैट नंबर-एसएफ-3 अग्रवाल पुत्र भगवान दास बसिया, श्री विनोद कुमार दक्षिण—पूर्वः प्लॉट नंबर—बी—59 दक्षिण—पश्चिमः अन्य प्लॉट के अनुसार पत्र राजेंद्र प्रसाद सिंह (गारंटर)

₹. 19.83.247/-अली, श्री. मोहम्मद परवेज आलम पुत्र स्वर्गीय मो. गाजियाबाद—201102, उत्तर प्रदेश। (लगभग 500 वर्ग फूट का परिमाप) डिमांड नोटिस गुलाम अली (उधारकर्ता) श्री प्रमोद पुत्र राजपाल सिंह दिनांक 05.07.2023 उत्तरः सड़क पर्वः प्लॉट नंबर-एफ-6 पश्चिमः फ्लैट नंबर-एफ-1 के अनुसार 'उपरिवर्णित तिथि से भूगतान की तिथि तक, सहमत संविदात्मक दर्रो पर, आगे ब्याज के साथ देय।

एतदद्वारा आपसे उपरोक्त राशि का भूगतान उस पर संविदा दर पर ब्याज सहित इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमे विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी सरफासी ऐक्ट के अधीन उपरोक्त प्रतिभूति प्रवर्तित करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ करने हेतू बाध्य होगा। इसके अतिरिक्त कर्जदारों / गारंटरो का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

तिथिः 18-07-2023, स्थानः नई दिल्ली हस्ता. / –, प्राधिकृत अधिकारी, केन फिन होम्स लिमिटेड

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैक UIIIVAN SMALL FINANCE BANK द्वितीय तल, जीएमटीटी बिल्डिंग, डी-7, क्षेक्टर-3, नोएडा (उ.प्र.)-201301

राशि*

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निम तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, यहां नीचे अंकित तिथियों पर ऋणकर्ता / गारंटर को मांग सचना निर्गत की थी, जिसमें ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) क संबंधित मांग सूचना में अंकित राशि का सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था ऋणकर्ता / सह-ऋणकर्ता / बंधककर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा ऋणकर्ता / बंधककर्ता, सह-ऋणकर्ता / बंधककर्ता, सह-ऋणकर्ता और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के

प्रयोगांतर्गत, प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित तिथियों पर, सांकेतिक अधिग्रहण कर लिया है।

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतू) नियम 8(1)

अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। ऋणकर्ता / बंधककर्ता, सह-ऋणकर्ता / बंधककर्ता और सह-ऋणकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्यतय सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्नांकित बकाया राशि(यों) की एक राशि और इन पर निम्नलिखित प्रत्येक खाता के समक्ष अंकित ब्याज और अन्य शुल्कों / व्ययों हेतू उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लि. के प्रभाराधीन होगा।

ऋणकर्ता / बंधककर्ता, सह-ऋणकर्ता / बंधककर्ता और सह-ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभुत परिसंपत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ

ऋणकर्ता/सह-ऋणकर्ता/ बंधककर्ता का नाम एवं पता	अचल संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि तथा अधिग्रहण की तिथि	मांग सूचना के अनुसार राशि
1. नसीमुद्दीन औलाद शाहबुद्दीन 425/3, दरगाह के पास, चांद मसजिद, मुरादनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201206, 2. तसलीम पत्नी नसीमुद्दीन 425/3, दरगाह के पास, चांद मसजिद, मुरादनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201206, 3. शाहबुद्दीन औलाद अबीबुल्ला 425/3, दरगाह के पास, चांद मसजिद, मुरादनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201206, 4. अजीजान पत्नी शाहबुद्दीन 425/3, दरगाह के पास, चांद मसजिद, मुरादनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश—201206, ऋण खाता संख्या 224976100000005 के अंतर्गत	समस्त वह भाग तथा अंश जिनका अधिमापन है जो खसरा सं. 16 मुरादनगर, परगना जल गाजियाबाद में स्थित तथ् सीमाएं: पूर्व— अन्य की संप	मांग सूचना की तिथि : 29.03.2023 अधिग्रहण की तिथि : 18.07.2023 100 वर्ग गज अथवा 83.61 वर्ग मीटर 64 में समाविष्ट तथा ग्राम सरना ालाबाद, तहसील मोदीनगर, जनपद था निम्नानुसार परिसीमित हैं: ।ति, पश्चिम— जाफरी अली की संपत्ति, गंगू की संपत्ति । संपत्ति, शाहबुद्दीन पुत्र से नं. 3 से संबंधित हैं।	उस पर ब्याज
दिनांक : 19-07-2023	स्थान : गाजियाबाद	प्रा	धिकृत अधिकारी



इक्विटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में इक्विटास फिनैंस लिमिटेड के रूप में)

पंजीकृत कार्यालयः नं. 769, स्पेंसर प्लाजा, चौथी मंजिल, फेज—II, अन्ना सलाई, चेन्नई, तमिलनाडु— 600002

044-42995000, 044-42995050

कब्जा नोटिस (नियम 8 (1) के तहत—अचल संपत्ति के लिए) चंकि अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभतिकरण और पनर्निर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन (अधिनियम, 2002 (2002 का 54)) के तहत मैसर्स इक्विटार

स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12)तहत प्रदत्त शक्तियों क प्रयोग करते हुए एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित कुल बकाया राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए कहा गया था। चुंकि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता ने निर्धारित समय के भीतर नीचे बताई गई राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। अतः नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 के उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि अनुसूची में उल्लिखित संपत्तियों के साथ लेनदेन करें और संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन मेसर्स इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को देय राशि और उस पर आगे के ब्याज और अन्य शुल्क के प्रभार के अधीन होगा।" प्रतिभृति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्त का ध्यान आकर्षित किया जाता है।"

	सं	का नाम	(अचल संपत्ति)	दिनांक और राशि	कब्जा लेने की तारीख
1	1.	शाखा : अलवर	पट्टा संख्या ०२८, पुस्तक संख्या ०५, संकल्प संख्या २, ग्राम घसोड़ी, ग्राम पंचायत गसोड़ी,	06.01.2022	15.07.2023
1		लैन संख्याः	पंचायत समिति कृष्णगढ़ बास, जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित आवासीय संपत्ति होने	और	
П		SEIBAWR0293044	के नाते गैर–कृषि संपत्ति के सभी टुकड़े और अंश, माप क्षेत्र 166.66 वर्ग गज / 1494 वर्ग	₹.	
1		कर्जदारः राजेंद्र,	फुट और उस पर सभी वर्तमान और भविष्य की अधिरचना। उक्त संपत्ति की चौहद्दी :—	,	
1		सह–उधारकर्ताः किरण देवी,	उत्तरः किशन लाल का घर, दक्षिणः मनोरी लाल का घर, पूर्वः आम रास्ता, पश्चिमः मोहन		
		सोहनलाल, बचना	लाल का घर। माप क्षेत्र 166.66 वर्ग गज/1494 वर्ग फुट।		
1	4	10.07.0000 7017			* - 0.01

दिनाकः 19.07.2023, स्थानः राजस्थान प्राधिकृत अधिकारी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड



क्रं ऋणी(ओं) / गारंटरों

इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

(पूर्व में इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) पंजीकृत कार्यालयः नं. 769, स्पेंसर प्लाजा, चौथी मंजिल, फेज- II, अन्ना सलाई, चेन्नई, तमिलनाड्-600 002.

044-42995000, 044-42995050

संपर्क नामः अमित सिंह बीदावत-9928988111, जितेंद्र सिंह-9529928841

अचल संपत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

सामान्य तौर पर आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपित सरक्षित लेनदार के पास गिरवी रखी गई है, जिसका भौतिक कब्जा इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी द्वारा लिया गया है जिसे निम्नलिखित कर्जदारों से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नीचे दी गई बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसा है जहां है" "जैसा है जिस भी स्थिति में है"पर 25-08-2023 को बेचा जाएगा

कर्जदार/रों और जमानतदार/रों का	प्रतिभूति संपत्ति का विवरण
नाम और पता, कुल देय + से ब्याज	(अचल संपत्ति)
	, ,
1. श्री छीतर पुत्र ग्यारसा राम	पट्टा संख्या ३४३८, खसरा संख्या ६१६ / ०.६३, ग्राम बुचाहेड़ा, चांचकी, रामसिंहपुरा, नगर परिषद
2. श्रीमती कृष्णा देवी पुत्री बहादुर गुरार	मंडल कोटपूतली, तहसील–कोटपूतली, जिला जयपुर (राजस्थान) में स्थित आवासीय संपत्ति होने
दोनों निवासी : ग्राम बुचाहेड़ा रामसिंहपुरा कोटपुल्टी,	के नाते गैर–कृषि संपत्ति के सभी टुकड़े और अंश , क्षेत्रफल 153.22 वर्ग गज के साथ सभी
जयपुर राजस्थान 303108	वर्तमान और भविष्य की अधिरचना। उत्तर में: प्लॉट नंबर 10 और रमेश सिंह का प्लॉट नंबर,
ऋण खाता क्रमांक —SEKOTPT0204271	दक्षिण में: ओमप्रकाश का प्लॉट, पूर्व में: 30 फीट का आम रास्ता , पश्चिम में : दूसरों की भूमि,
देय दावा राशिः 31-03-2022 के अनुसार	माप क्षेत्र 153.22 वर्ग गज साथ में वर्तमान और भविष्य दोनों सभी इमारतें और संरचनाएं जो
रु. ७.७७.५ के साथ , 01−04−2022 से अतिरिक्त	जमीन से जुड़ी हुई हैं या जमीन से जुड़ी किसी चीज से स्थायी रूप से जुड़ी हुई हैं,तथा उससे
ब्याज के साथ मासिक किस्त, शुल्क और लागत आदि,	जुड़े सभी मौलिक / मामूली अधिकार शामिल है।
(11-07-2023 को कुल बकाया 1263816 / - रुपये है)	आरक्षित मूल्यः रु.19,50,000 / – ईएमडीः रु.1,95,000 / –

नीलामी की तिथिः 25—08—2023 ई-नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया www.equitasbank.com और https://sarfaesi.auctiontiger.net में दिए गए लिंक को देखें।

दिनांक :19.07.2023, स्थान : राजस्थान प्राधिकृत अधिकारी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड



भारतीय स्टेट बैंक रिटेल एसेट्स सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल (16683) एफ-40, दूसरी मंजिल, रिंग रोड, साउथ एक्स.-।, नई दिल्ली—110049, ईमेलः sbi.16683@sbi.co.in

माग सूचना वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस। (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) कार ऋण संख्या 41589456999

मांग सूचना | सांकेतिक

जबिक अधोहरताक्षरी सरफेसी अधिनियम के तहत भारतीय स्टेट बैंक के प्राधिकत अधिकारी हैं और नियमों के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है जिसमें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नीचे सचीबद्ध उधारकर्ता / गिरवीकर्ता / गारंटर (बाद में "उक्त उधारकर्ता" के रूप में संदर्भित) को नोटिस में उल्लिखित राशि को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहा गया है। उक्त नोटिस या तो डाक अधिकारियों द्वारा बिना डिलीवर किए वापस कर दिया गया है या उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों द्वारा इसकी पृष्टि नहीं की गई है। इसलिए बैंक अत्यधिक सावधानी बरतते हुए मांग नोटिस के इस प्रकाशन को प्रभावी कर रहा है। इसलिए, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम के अनुसार उक्त नोटिस को उक्त उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों के अंतिम ज्ञात पते के परिसर पर चिपकाया है। उक्त नोटिस की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं; और उक्त उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटर, यदि चाहें, तो सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से उक्त प्रतियां प्राप्त कर सकते हैं।उपरोक्त पृष्ठभूमि में,एक बार फिर उक्त उधारकर्ताओं / बंधककर्ताओं / गारंटरों को नोटिस दिया जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर नीचे दी गई राशि के साथ संविदात्मक दरों पर भविष्य के ब्याज और नीचे उल्लिखित तिथियों से ऋण और अन्य दस्तावेजों के तहत भुगतान की तिथि तक किस्तों को भारतीय स्टेट बैंक को भुगतान करें। ऋण के उचित पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को संबंधित उधारकर्ताओं द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में गिरवी / बंधक रखा गया है। यदि उक्त उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटर उपर्युक्त के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक को भृगतान करने में विफल रहते हैं, तो भारतीय स्टेट बैंक उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ सरफेसी अधिनियम और नियमों की धारा 13(4) के तहत लागत और परिणाम के संबंध में उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटर के पूरी तरह से जोखिम पर कार्रवाई करेगा। इसके अलावा, सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (बी) के प्रावधानों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। आपको सरफेसी अधिनियम के तहत भारतीय स्टेट बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा सुरक्षित संपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है,वह अधिनियम की धारा 29 के तहत कारावास और / या जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

उधारकर्ता / बंधककता / गारंटर का नाम एवं पता	लागू की जाने वाली सुरक्षा का विवरण	धारा 13(2) के तहत नोटिस के अनुसार राशि	दिनांक
श्रीमती रूमी बरुआ वास्ते संजय सिंघल, एस–109, भूतल,सुंदरब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली110092। इसके अलावा:— मकान नं. 154 ए,भूतल, दयाल मार्केट चंदनपुरी, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201001। इसके अलावा:— प्रियांशी फुट वियर डी— 223, स्ट्रीट नंबर 8, लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास नई दिल्ली 110092,	मालिक का नामः श्रीमती रूमी बरुआ पंजीकरण संख्याः DL12CV9473 मॉडलः THAR LXD MT 4WD 4S HT	रु. 15,35,201 / — (पंद्रह लाख पैंतीस हजार दो सौ एक रुपये मात्र) के साथ अतिरिक्त ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागत आदि ।	
			41589456999

'प्रपत्र सं. आइएनसी—26' कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्रीय सरकार क्षेत्रिय निदेशक के समझ

(उत्तरी क्षेत्र) दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में हार्परकोलिन्स पब्लिसर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 18/19, ओल्ड राजेंद्र नगर, नई दिल्ली-110060 में स्थित है गम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी **हेन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013** की घारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "राष्ट्रीय राजघानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियांणा राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 22 जून, 2023 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के

संशोधन की पुष्टि की मांग की गई हैं। कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररुप फाइल कर हमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक अपन्य पत्र विसमें जनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र, को इस सुबना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पंडित दीनदयाल अत्योदय मवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली—110003 पते पर पंजीकत डाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त

संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिशन में

रजिरट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी भेजेगा। हार्परकोलिन्स पब्लिशर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड CIN: U22200DL1991PTC042793 रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 18 / 19, ओल्ड राजेंद्र नगर, नई दिल्ली-110060 ईमेल आईडी : amit.abrol@harpercollins-india.com

कृत्ते की ओर से हाप्रकोलिन्स पब्लिशर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड अमित अबोल

तिथि : 19.07.2023 निदेशक ढीआईएन : 01027611

पंजी. कार्यालय : एम-६, द्वितीय तल, एम-ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश-।।, नई दिल्ली-110048 कार्पोरेट कार्यालय : बी-22, सेक्टर-4, नोएडा-201301 वेबसाइट : www.fslindia.com, ई-मेल : secretarial@fsltechnologies.com फोन : +91-120-2534067, फैक्स : +91-120-2534111

फ्रांटलाइन सिक्योरिटीज लिमिटेड

सीआईएन : U65100DL1994PLC058837

FSL

(कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ) कंपनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) में अनिवार्य अंतरण

यह सूचना कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियम, 2016 ("नियम" के प्रावधानों और उसके बाद के संशोधन के अनुसार प्रकाशित किया गया है। आईईपीएफ नियम, अन्य बातों के साथ-साथ उन अंतर्निहित शेयरों के अंतरण का प्रावधान करते हैं जिनके संबंध में शेयरधारकों द्वारा लगातार सात वर्षों तक लाभांश का भुगतान या दावा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित आईईपीएफ (फंड) में नहीं किया गया है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियम, 2016 के नियम 6 (1) के अनुसार, ''अंतर्निहित शेयरों को ऐसे शेयरों को फंड में अंतरित होने के 30 दिनों की एक अवधि के भीतर उक्त उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा खोले गए प्राधिकरण के डीमैट खाते में जमा किया जाएगा। उक्त नियमों के अनुसार, उन संबंधित व्यक्तिगत शेयरधारकों को सूचना भेजी गयी है,

जिनका लाभांश वित्त वर्ष 2015—16 के बाद से अभुगतानकृत/अदावाकृत हो गया है, कि कंपनी नियत तिथि यानी 21 अक्टूबर, 2023 तिथि से 30 दिनों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त सचना के आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण के लिए कार्रवाई शुरू कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ खाते में अंतरण के लिए देय शेयरों का विवरण अपनी वेबसाइट www.fslindia.com पर भी अपलोड किया है। शेयरधारकों

सत्यापित करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध निवेशक अनुभाग देखें। यदि शेयरधारक 13 अक्टूबर, 2023 तक उपरोक्त लाभांश का दावा करने में विफल रहते हैं, तो कंपनी शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत कंपनी के अंतर्निहित इक्विटी शेयरों को बिना किसी भवी सचना के आईईपीएफ प्राधिकरण के आईईपीएफ खाते के क्रेडिट में अंतरित करने के लिए अग्रकार्रवाई करेगी। कृपया ध्यान दें कि उक्त नियमों के अनुसार अदावाकृत लाभांश राशि और आईईपीएफ को अंतरित शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जाएगा।

से अनुरोध है कि वे आईईपीएफ में अंतरित किए जाने वाले शेयरों के विवरण को

शेयरधारक कपया ध्यान दें कि आदावाकृत लाभांश और आईईपीएफ प्राधिकरण के आईईपीएफ खाते में अंतरित शेयर दोनों ऐसे शेयरों पर अर्जित सभी लाभों यदि कोई। हो, सहित, को नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ

प्राधिकरण से वापस दावा किया जा सकता है। संबंधित शेयरधारक जिनके पास भौतिक रूप में शेयर हैं और जिनके शेयर आईईपीएफ खाते में अंतरित किए जाने योग्य हैं, ध्यान दें कि कंपनी नियमों के अनुसार आईईपीएफ खाते में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा रखे गए मूल शेयर प्रमाणपत्र के बदले में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और ऐसे मुद्दे पर, मूल शेयर प्रमाणपत्र जो उनके नाम पर पंजीकृत हैं, स्वचालित रूप से रद्द हो जाएंगे और अपरक्राम्य माने जाएंगे। शेयरधारक आगे ध्यान दें कि कंपनी द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए गए विवरणों पर विचार किया जाना चाहिए और नियमों के अनुसार आईईपीएफ खाता में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कंपनी द्वारा डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में इसे पर्याप्त सचना माना जाएगा।

किसी भी प्रश्न की स्थिति में, कृपया कंपनी या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों से मैसर्स एसकेआई कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, रजिस्ट्रार शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), 718, डॉ. जोशी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली—110005, फोन नंबर: 011-45046000 / 30, ईमेल आईडी : contact@skicapital.net पर संपर्क करें।

कृते फ्रंटलाइन सिक्योरिटीज लिमिटेड गौरी शंकर पांडे

दिनांक : 18-07-2023 स्थान : नोएडा

एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सीआईएन-L27109DL1995PLC338407)

(निदेशक)

वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग जानकारी और बही समापन की सूचना

पंजीकृत एवं निगमित कार्यलयः बानी कॉर्पोरेट वन, सूट नं. 308, तृतीय तल,

भूखंड सं. 5, जनपद कमर्शियल सेंटर, जसोला, नई दिल्ली – 110 025

दुरभाष नं. 011-48593300, फैक्स नं.: 011-48593320,

ई-मेल : cs@mblinfra.com, वेबसाइट : www.mblinfra.com

एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (कंपनी) की अड्डाईसवी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शनिवार, 12 अगस्त, 2023 को 3.30 अपराह बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (''ओएवीएम'') सुविधा के माध्यम से सूचना में निर्धारित व्यवसाय(यों) को संचालित करने के लिए, जिसे 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ भेजा जाएगा, आयोजित की जाएगी। और सूचना को कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जायेगा जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी / लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आरटीए के साथ पंजीकृत हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.mblinfra.com, और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यार्न www.bseindia.com और www.nseindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट यानी www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं।

सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। एजीएम में शामिल होने के निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा। कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने एजीएम में विचार किए जाने वाले प्रस्तावों पर एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग प्रदान करने के लिए एनएसडीएल के साथ व्यवस्था की है।

वे सदस्य, जिनके नाम कट-ऑफ तिथि यानी 5 अगस्त, 2023 को कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, केवल वे ही एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ ही ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। एक व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे तदनुसार एजीएम की सूचना को केवल सूचना के उद्देश्य से लेना चाहिए।

भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले या जिन्होंने कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन सदस्यों के लिए एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग का तरीका, एजीएम की सूचना में दिया गया है। एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद लेकिन 5 अगस्त, 2023 को या उससे पहले कंपनी के सदस्य बननेवाले व्यक्तिगण, एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in delhi@linkintime.co.in पर लिखकर रिमोट ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का अनुरोध कर सकते हैं। हालाँकि, रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से पंजीकृत सदस्यगण इस उद्देश्य के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि बुधवार, 9 अगस्त, 2023 को सुबह 9.00 बजे शुरू होगी और शुक्रवार, 11 अगस्त, 2023 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वार रिमोट ई-वोटिंग को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा, एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे बैठक में एक बार फिर से वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

एजीएम से संबंधित किसी भी प्रश्न / शिकायत की स्थिति में. सदस्यगण श्री अनभव माहेश्वरी कंपनी सचिव, एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, बानी कॉरपोरेट वन, सुइट नंबर 308, तृतीय तल, प्लॉट नंबर 5, वाणिज्यिक केंद्र, जसोला, नई दिल्ली– 110025 को लिख सकते हैं या 011-48593300 पर संपर्क करें या cs@mblinfra.com पर ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। इसके अलावा, ई—वोटिंग से संबंधित प्रश्नों के लिए, शेयरधारक https://www.evoting.nsdl.com के ''डाउनलोड'' अनुभाग के तहत उनके लिए उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) देख सकते हैं या 022–48867000 या 022–24997000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल के e-voting@nsdl.co.in पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।

आगे सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार, कंपनी के एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बहियां 5 अगस्त 2023 से लेकर के 12 अगस्त 2023 (दोनों दिन सिम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते एमबीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

अनुभव माहेश्वरी स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 18-07-2023 कंपनी सचिव

www.readwhere.com

नगर, नई दिल्ली- 110031

नगर, नई दिल्ली— 110031

3. दीपिका जैन

के माध्यम से

तिथि : 19-07-2023 स्थान : दिल्ली

एच. नंबर ९ / 1852, गली नंबर ०२, कैलाश नगर, गांधी

4. एस ए बी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड इसके निदेशकों

9 / 1852, गली नंबर 02, कैलाश नगर, गांधी नगर, नई

51,00,5 दिल्ली, जो निम्नानुसार परिबद्ध है : पूरब : उक्त 🎖 🕌

सम्पत्ति का पोर्शन, पश्चिम : गली नंबर 2, उत्तर 片 : अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : अन्य की सम्पत्ति

दिनांक- 19.07.2023 स्थान-नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक